

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 143]

नई दिल्ली, -बिवार, जून 1, 1975/ज्येष्ठ 11, 1897

No. 143]

NEW DELHI, SUNDAY, JUNE 1, 1975/JYAISTHA 11, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June 1975

G.S.R. 314(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 6 of the Bengal Finance (Sales Tax) Act, 1941 (Bengal Act 6 of 1941), as in force in the Union territory of Delhi, the Central Government hereby makes, with effect from the 1st of June, 1975, the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, the same having been notified in the Official Gazette for giving previous notice of its intention to do so, as required by the said sub-section, namely :—

In the said Schedule, for items 12 and 16-a, the following items shall respectively be substituted, namely :—

"12. Fresh milk (whole or separated) including boiled and sugared milk.";

"16-a. Dahi and Lassi."

[No. F. U-15034/23/74-Delhi]

K. C. PANDEYA, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 1975

सा० का० नि० 314(प्र).—दिल्ली सब राज्यक्षेत्र में तथा प्रवृत्त बंगाल फाइनंस (सैल्म टेक्स) एक्ट, 1941 (1941 का बंगाल एक्ट 6 को धारा 6) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, उक्त एक्ट की द्वितीय अनुसूची में, 1 जून, 1975 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो, उक्त उपधारा द्वारा यथापेक्षित, ऐमा करने के अपने आशय की पूर्ण सूचना देने के लिये राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है, अर्थात्:—

उक्त अनुसूची में, मद 12 और 16-क के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित मद रखी जायेगी, अर्थात्:—

“12. ताजा दुग्ध पूर्ण या सेरग्रेटा (जिनमें उबाला दुग्ध और शर्करायुक्त दुग्ध भी सम्मिलित है।”

“16-क दही और लस्सी।”

[मं० का० यू०-15034/23/74-दिल्ली]

के० सी० पाडेय, संयुक्त सचिव।

CORRIGENDA

In the Ministry of Home Affairs Order No. 3/5/AP/74-Poll(K), dated the 19th May, 1975, published as G.S.R. 285(E) at page 1071 in the Gazette of India Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (i), dated the 19th May, 1975, the following corrections are to be made:—

On page 1072,

- (i) in line 1 of the Proviso to sub-para (3) of Para 3 read the word “his” for the word “this”;
- (ii) in line 3 of para 5 read the words “from time to time,” for the words “from to time.”